



NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Office: Lotus Green City, Sector 23 & 24 Bhiwadi, Alwar Bypass, 75 Mtr. Road, Dharuhera Rewari, Haryana-123401, Tel.: 91-7419885077 E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com, Website: www.newtimeinfra.in

CIN: L24239HR1984PLC040797

Ref No.: NIL/BSE/59/2022-23

Date: 24/02/2023

To,

The Manager BSE Limited, Corporate Relationship Department, Phirozee Jeejee Bhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

BSE SECURITY CODE: 531959

<u>Subject: Submission of Newspaper Cuttings Pertaining to Publication of Un-Audited Financial Results (Consolidated and Standalone) for the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2022</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith Newspaper Cuttings Pertaining to Publication of Un-Audited Financial Results (Consolidated and Standalone) for the Quarter and nine months ended on December 31, 2022 published in the newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on February 24, 2023.

The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website.

You are requested to take note of the same and oblige.

Thanking You, For Newtime Infrastructure Limited

Raj Singh Poonia DIN: 09615705 (Director)

Address: H No. 13, Shanti Nagar Model Town,

Panipat, Haryana 132103

Encl: As Stated Above

FINANCIAL EXPRESS

PUBLIC NOTICE FOR

CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

Aditya Birla Housing Finance Limited

Inspection

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat 362266 Branch Office: Aditya Birla Housing Finance Limited, D-17, Sec-3, Noida UP 1. ABHFL: Authorized Officer Amandeep Taneja: 9711246064, Mandeep Luthra: 9999009978, Sankalp: 8600164979, Chirag Lokhande: 919773758208 2. Auction Service Provider (ASP) M/s e-Procurement Technologies Limited- Auction Tiger, Mr. Ram Sharma; Contact No. +91 8000023297

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

read with provision to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Whereas the Authorized Officer of Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor had taken possession of the following Secured assets pursuant to notice issued under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI) for recovery of the secured debts of the secured creditor, for the dues as mentioned herein below with further charges and cost thereon from the following Borrowers and Co. Borrowers. Notice is hereby given to the public in general and in: particular to the Borrowers and Co. Borrowers that e-auction of the following property for realization of the debts due to the Aditya Birla Housing Finance Limited will be held on "As is Where is" and "As is What is" Basis. Sr Name of the Borrowers


Amount as per

No.	& Co. Borrowers	Secured Assets	Demand Notice	Price	EMD	EMD Date	Date and Time	E-Auction
1.	Dolly Sethi, Amit Kumar	All That Piece And Parcel Of Entire Second Floor (Without Roof Rights) Out of Freehold Built Up Property Bearing No. C-115A, Built On Portion Of Old Plot No. C-115, Area Measuring 48 Sq. Yds, Out Of Khasra No. 17/8 (Rect. No. 17, Killa No. 8), Situated In The Area Of Village Asalatpur Khadar, Colony Known As Jeewan Park, C-Block, Uttam Nagar, New Delhi-110059, With Common Rights of Common Entrance, Passage, Staircase, Lift, Submersible, Open Shaft Area, Along with Bike Parking Rights In Stilt Floor / LG Area Of Building, And Bounded As: East: Portion Of Plot C-115, West: Road, North: Gali 10 Ft, South: Plot No. C-116	Rs. 22,22,903/- (Rupees Twenty Two Lacs Twenty Two Thousand Nine Hundred and Three Only)	Rs. 20,66,854/- (Rupees Twenty Lacs Sixty Six Thousand Eight Hundred and Fifty Four Only)	Rs. 2,06,685.4/- (Rupees Two Lacs Six Thousand Six Hundred Eighty Five and Four Paisa Only)	29-03-23	28-03-23 between 11:00 am to 04:00 pm.	30-03-2023
2	Neetu Kumar, Sanjay, Neeta Electricals	All That Piece And Parcel Of Built -Up Third Floor (Front Side with Roof /Terrace Rights) In Property Bearing No. 48, Land Area Measuring 68 Sq. Yds., (i.e, 56.9 Sq. Mtrs) out Of Total Area Measuring 108 Sq. Yds., Out Of Khasra No. 811, Situated In The Revenue Estate Of Village Nawada, Colony Known As Om Vihar Phase-II, Uttam Nagar, New Delhi -110059, With One Car Parking Space At Ground Floor Parking Area and Boundaries East: Portion Of Property, West: Gali 20 Ft., Wide, North:Plot No. 48-A, South: Remaining Portion Of Said Property	Rs. 27,95,728.68 (Rupees Twenty Seven Lacs Ninety Five Thousand Seven Hundred Twenty Eight and Sixty Eight Paisa Only)	Rs. 19,97,520/- (Rupees Nineteen Lacs Ninety Seven Thousand Five Hundred and Twenty Only)	Rs. 1,99,752/- (Rupees One Lac Ninety Nine Thousand Seven Hundred and Fifty Two Only).	29-03-23	28-03-23 between 11:00 am to 04:00 pm.	30-03-2023

Place: New Delhi

of properties where possession had been taken is as follows:

Authorized Officer. Aditya Birla Housing Finance Limited



Date: 24/02/2023

https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act or https://sarfaesi.auctiontiger.net

Description of Properties/

punjob notional bank
...the name you can BANK upon!

Circle office: Ramganga Vihar,
Near Sale Tax Office
Kanth Road, Moradabad

POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of the PUNJAB NATIONAL BANK, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

"For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor's website i.e.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The borrower/gurantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the PUNJAB NATIONAL BANK, for the amounts and interest thereon. The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset. Details

Sr. No.	Name of the Borrower/Guarantor/ Mortgagor/Branch Name	Description of the Properties (Movable/Immovable)	Outstanding Amount as per	Date of Demand Notice	
NO.	mortgagoribianen italia	(movablemmovable)	Demand Notice	Date of Possession	
1.	Borrower: M/s Noor Global, Smt.	Residential House Property Situated at Mohalla - Katghar Udpura, Near	Rs.	14.12.2022	
	Razia Noor w/o Sh. Nooruddin (Proprietor & Mortgagor) (Deceased) & Sh. Nooruddin s/o Sh. Ameeruddin (Guarantor & Legal Heir) Branch: Amroha Gate, Moradabad	Pehalwan Sahab Ki Jyarat, Lajpat Nagar Uttari, Moradabad (UP), Area 70.02 sq.mtrs., (In the name of Smt. Razia Noor w/o Sh. Nooruddin), Registered in Bahi No.: 1, Jild No: 15813, Pages: 169-186, Serial No: 20269, Dated 30.11.2019, SRO-I, Moradabad, Bounded as: North: House of Mohd. Ahmad & Zahid Hussain, South: Rasta 25 Feet Wide, East: Rasta Gali 6 Feet Wide, West: Rasta Mushtarka 1.82 Meter Wide	27,56,256/- as on 14.12.2022 + int. & other charges	20.02.2023	
2.	Borrower: M/s Baba Enterprises &	Commercial & Residential Building Property Situated at Mohalla- Katra Narpat	Rs. 30,06,163/-	14.12.2022	
	Sh. Sunil Kumar Gupta s/o Late Sh. Purshottam Saran (Proprietor & Mortgagor) Branch: Amroha Gate, Moradabad	Ganj, Moradabad, (UP), Area 26.36 sq.mtrs., (In the name of Sh. Sunil Kumar Gupta s/o Late Sh. Purshottam Saran), Registered in Bahi No: 1, Jild No: 3642, Pages: 171-190, Serial No.: 6794, Dated 05.09.2002, SRO-I, Moradabad, Bounded as: North: Remaining Property of Vipin Kumar Now Smt. Kamlesh & Others, South: Remaining Property of Vipin Kumar Now	as on 14.11.2022 + int. & other charges	20.02.2023	

Vikram Singh Gupta, East: Remaining Property of Vipin Kumar Now Smt.

Dated: 23.02.2023

Place: Moradabad

Kamlesh & others, West: Rasta 20 Feet Wide

Authorized Officer, Punjab National Bank

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD.

AUCTION CUM SALE Registered Office at: -Shivalik Small Finance Bank Ltd.501, Salcon Aurum, Jasola district Centre, New Delhi, South Delhi, Delhi -110025 & Branch Office at Shivalik Small Finance NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES Bank Ltd, 567-569, Choudhary Market, Near Union Bank of India, Sardhana, Meerut.

Appendix - IV-A [See Proviso to rule 8 (6)]

Open Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive possession of which has been taken by the Authorized Officer of Shivalik Small Finance Bank Ltd., the Secured Creditor, will sold on "As is Where is", As is What is" and Whatever there is on 14.03.2023, for recovery of Rs. 5,15,456.68 (Rupees Five Lakhs Fifteen Thousand Four Hundred Fifty-Six and Sixty-Eight Paise Only) As on 17-02-2020 dated plus interest & charges thereafter due to the Shivalik Small Finance Bank Ltd. secured creditor from 1. Mr. Rajiv Kumar (Borrower/ Mortgagor) S/o Mr. Om Prakash R/o-Village Lawar, Lawar Khas Rural, Meerut, U.P.-250222; 2. Mr. Satish Chand Sinha (Guarantor/ Mortgagor) S/o Late Om Prakash R/o: - Village Lawar, Lawar Khas Rural, Meerut, U.P.-250222; and 3. Mr. Sanjeev Kumar (Guarantor/Mortgagor) S/o Mr. Om Prakash R/o Village Lawar, Lawar Khas Rural, Meerut, U.P.-250222.

The reserve price will be Rs. 21,42,000/- (Rupees Twenty-One Lakh Forty-Two Thousand Only) and the earnest money deposit will be 10% of Bid Amount i.e., Rs.2,14,200/- (Rupees Two Lakhs Fourteen Thousand Two Hundred Only) the latter amount to be deposited with the Bank on or before 14-03-2023 by 5 PM, particulars of which are given below: -

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Outstanding Amount as per Demand Notice	Description of the Immovable properties	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)
1. Mr. Rajiv Kumar (Borrower/ Mortgagor) S/o Mr. Om Prakash R/o: - Village Lawar, Lawar Khas Rural, Meerut, U.P-250222. 2. Mr. Satish Chand Sinha (Guarantor/ Mortgagor) S/o Late Om Prakash R/o: - Village Lawar, Lawar Khas Rural, Meerut, U.P250222; and 3. Mr. Sanjeev Kumar (Guarantor/ Mortgagor) S/o Mr. Om Prakash R/o Village Lawar, Lawar Khas Rural, Meerut, U.P250222. (Loan Account No.103141000157)	Rs. 5,15,456.68 (Rupees Five Lakhs Fifteen Thousand Four Hundred Fifty- Six and Sixty-Eight Palse Only)	All the piece and parcel of the immovable properties bearing address- Residential Property measuring Area of 430 Sq. mtrs, Situated at Khasra No. 1616,1618, of Khata No. 49, Gram Lavda Janali, (Within UAZA within Limits), Pargana Daurala, Tehsil Sardana, District-Meerut, U.P.	21,42,000/- (Rupees Twenty-One Lakhs	10% of Reserve Price i.e., Rs.2,14,200/- (Rupees Two Lakhs Fourteen Thousand Two Hundred Only)

Date of Inspection of Immovable properties: 10th March 2023.......1100 hrs - 1500 hrs

Auction Date and time of opening of Bid: 14th March 2023 from 1400 hrs to 1500 hrs Last Date for Submission of Offers / EMD: 13th March 2023 till 5.00 pm.

https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php Important Terms & Conditions of Sale:

(1) The property is being sold on "as is where is, whatever there and without recourse basis as such sale is without any warranties and indemnities." (2) The property/documents can be inspected on the above given date and time with the Authorised Officer of the Bank.

(3) Bid document/Form containing all the general terms and conditions of sale can be obtained from Authorised Officer on any working day during office hours at Bank's Branch Office mentioned herein above. The intending bidders should send their sealed bids on the prescribed Bid Form to Be Authorised Officer of Bank. (4) Bid to be submitted in sealed envelope mentioning the Bid for Auction property and accompanied with EMD (being 10% of the Bid Amount) by Demand

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Shivalik Small Finance Bank, the Secured Creditor's website

Draft drawn in favour of "Shivalik Small Finance Bank Ltd", payable at Sardana, Meerut/Noida on or before 14th March 2023 till 5.00 p.m. at the abovementioned Branch office of Bank. Bids that are not filled up or Bids received beyond last date and time will be considered as invalid Bid and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, the same cannot be withdrawn. (5) The sealed bids will be opened on 14th March 2023 at 14:00 hrs - 15:00 hrs at the above-mentioned Branch Office of Bank in the presence of the

bidders present at that time and thereafter the eligible bidders may be given an opportunity at the discretion of the Authorised officer to participate in interse bidding to enhance the offer price.

(6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs.50,000/-. The property will

not be sold below the Reserve Price set by the Authorised Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately not later than next working day by Demand Draft drawn

in favour of Shivalik Small Finance Bank Ltd, payable at MEERUT/NOIDA and the balance amount of sale price shall be paid by the successful bidder within 15 days from the date of confirmation of sale by Bank. The EMD as well as Sale Price paid by the interested bidders shall carry no interest. The deposit of EMD or 25%, whatever the case may be, shall be forfeited by the Bank, if the successful bidder fails to adhere to the terms of sale or commits

(8) Bank does not take any responsibility to procure any permission/NOC from any Authority or under any other law in force in respect of property offered or any other dues i.e., outstanding water/electric dues, property tax, Municipal/ Panchayat taxes or other charges if any.

(9) The successful bidder shall bear all expenses including pending dues of any Development Authority if any/taxes/utility bills etc. to Municipal Corporation or any other authority/agency and fees payable for stamp duty/registration fee etc. for registration of the 'Sale Certificate' (10) The Authorised Officer reserves the absolute right and discretion to accept or reject any or all the offers/bids or adjourn/cancel the sale without assigning

any reason or modify any terms of sale without any prior notice. (11) Bids once made shall not be cancelled or withdrawn. (12) To the best of its knowledge and information, the Bank is not aware of any encumbrances on the property to be sold except of Bank. Interested parties

should make their own assessment of the property to their satisfaction. Bank does not in any way guarantee or makes any representation about the fitness/title of the aforesaid property. For any other information, the Authorised Officer shall not be held responsible for any charge, lien, encumbrances, property tax or any other dues to the Government or anybody in respect to the aforesaid property. The notice is hereby given to the Borrower (s) / Mortgager(s)/ Guarantor(s), to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale. (13) The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed

(14) Bank is not responsible for any liabilities upon the property which is not in the knowledge of the Bank. (15) The Borrower (s) / Mortgager(s) / Guarantor(s) are hereby given STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE 6(2), 8(6) & 9(1) OF THE SARFAESI

ACT, published in Hindi & English Edition in Newspaper, to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with up-to-date interest and expenses within Fifteen days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in English and Vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity. If the borrower/guarantors/mortgagers pay the amount due to Bank, in full before the date of sale, auction is liable to be stopped. However, in such cases, Further interest will be charged as applicable, as per the Loan documents on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization.

(16) The decision of the authorized officer is final binding and un-questionable. All bidders who submitted the bid shall be deemed to have read and understood the terms and condition of auction sale and be bound by them

(17) For details, help, procedure and biding prospective bidders may contact. Jagbir Giri- Contact No. 9045002318.

Please note that the secured creditor, the Bank is going to issue sale notice to all the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors by POST by their addresses. In case, the same is not received by any of the parties, then this publication of sale notice may be treated as substituted mode of service.

The Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors are also hereby informed that he/they must take delivery of their household effects, lying inside the above premises/under the custody of the Bank, if any within 15 days of this publication, with prior permission, failing which the Bank shall have no liability/responsibility to the same and will dispose of at the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors risk and adjust the sale proceed towards dues

If the Auction fails due to any reasons whatsoever, the Company would at liberty to sell the above mortgaged properties through private treaty as per provisions mandated under SARFAESI Act. 2002. Date: 22-02-2023 Place: Meerut Sd/- Authorised Officer, Shivalik Small Finance Bank Ltd.

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED CIN No.: L24239HR1984PLC040797

Regd. Off.: Lotus Green City Sector 23 & 24, Bhiwadi Alwar Bypass 75 Mtr. Road Dharuhera Rewari HR 123401 Tel: +91-7419885077 | Email: newtimeinfra2010@gmail.com | Website: www.newtimeinfra.in

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2022 (Runees in Lac)

	Sec. 100 (40)	STANDALONE					CONSOLIDATED						
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	
					31.12.2022 (Un- Audited)		31.03.2022 (Audited)		30.09.2022 (Un- Audited)	31.12.2021 (Un- Audited)	31.12.2022 (Un- Audited)		31.03.2022 (Audited)
1.	Total Income from operations	175.00	101.50		289.00	-		175.00	101.50	-	289.00		=
2.	Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates and joint venture, exceptional items and tax	28.86	(16.17)	(106.35)	(86.78)	(351,54)	(464.73)	18.45	(26.36)	(115.89)	(117.34)	(379.62)	(502.68)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	28.86	(16.17)	(106.35)	(86.78)	(351.54)	(464.73)	18.45	(26.36)	(115.89)	(117.34)	(379.62)	(502.68)
4.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	28.86	(16.17)	(110.51)	(64.66)	(355.70)	(2,641.64)	18.45	(26.36)	(120.05)	(95.22)	(383.78)	(2,679.59)
5.	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items)	28.86	(16.17)	(110.51)	(64.66)	(355.70)	(2,641.64)	18.45	(26.36)	(120.05)	(95.22)	(383.78)	(2,679.59)
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) & other Comprehensive Income (after tax))	28.86	(16.17)	(110.51)	(64.66)	(355.70)	(2,640.38)	13.04	(9.64)	(95.61)	(73.35)	(419.58)	(2,781.17)
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46
8.	Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of pervious accounting year				*3		770.51						6,345.58
9.	Earnings per Share (Face Value of Rs. 1/- each) for continuing operations)												
	(a) Basic	0.02	(0.01)	(0.06)	(0.04)	(0.21)	(1.55)	0.01	(0.01)	(0.06)	(0.04)	(0.25)	(1.63)
	(b) Diluted 175.00	777	-77	-	7777		1			1777	15-71		

in

1. The above Un-Audited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 22th February, 2023 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 22th February, 2023.

2. In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory auditor have performed an audit of the standalone and consolidated financial results of the Company for the Quater and Nine month ended 31st December, 2022.

3. This statement has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements). Regulations, 2015 (as amended).

Other Comprehensive Income includes net movement of re-measurement of defined benefit plans and alike adjustments. Previous year figures have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to confirm to the current Period presentations.

6. As the Company has one Operating Segment and disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable.

The Company has incurred a net profit of Rs. 28.86 lakhs and a loss of Rs. 64.66 lakhs for the guarter and period ended December 31, 2022 respectively, and accumulated losses as on December 31, 2022 stand at Rs. 5493.35 lakh. The Management has considered the possible impact of the losses and disruption caused by restriction imposed by COVID-19 spread, on the Company, including of assessment of liquidity and going concern assumption and carrying value of assets, as on 31st December, 2022. Based on such assumption, it has concluded that none of the assets are likely to be impaired and Company will be able to continue as a going concern for a foreseeable future.

During the previous quarter the Company has disposed of its investment in two subsidiaries namely "Cropbay Real Estate Pvt Ltd & Estaeagro Real Estate Pvt Ltd" on 6th September, 2022. Accordingly financial results of those subsidiaries have been consolidated till date of disposal.

The Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2022 is available on the website of the Company https://www.newtimeinfra.in/ and the website of **BSELtd**

Raj Singh Poonia Additional Director & Chief Financial Officer Date: 22/02/2023 DIN: 09615705 Place: New Delhi

DEUTSCHE BANK AG Appendix IV [Rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the authorized officer of Deutsche Bank AG, India ("Bank") having its registered office at Ground & 14th Floor, Hindustan Times House, 18-20, K.G Marg, New Delhi-110 001. The undersigned under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 23.11.2022 calling upon the borrower M/s Jagdamba Iron Store ("Borrower"), Mr. Basudev Singh, & Mr. Rajesh Kumar Singh ("Co-Borrowers), to repay the outstanding amount as mentioned in the notice being Rs. 2,30,66,548.14 (Rupees Two Crore Thirty Lacs Sixty Six Thousand Five Hundred Forty Eight And Paisa Fourteen Only) and further interest at contractual rates on the aforesaid amount, incidental expenses, costs, charges etc. incurred and accruing on daily basis thereafter till the date of payment and / or realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower mentioned herein above having failed to repay the amount in full as mentioned in 13(2) is hereby given to the Borrower / Co-borrower mentioned here in above in particular and to the public in general that undersigned has taken symbolic/ constructive possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said act on this 22nd Day of February of the year 2023.


The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank for an amount of Rs. 2.30.66.548.14 (Rupees Two Crore Thirty Lacs Sixty Six Thousand Five Hundred Forty Eight And Paisa Fourteen Only) and interest thereon.


Description of the Immovable Property

All that the self-contained residential property being : Entire Second Floor & Third Floor with roof/terrace rights with one-half share in Stilt for parking purpose, part/portion of the building built on free-hold residential Plot of land bearing no. 123, Block No. 123, Block No. B-1 (Also familiar as Property No. B-1/123), in the lay-out plan of the Paschimpuri Residential Scheme, colony known as Paschim Vihar, New Delhi-110063 along with undivided proportionate one-half share in land beneath the same and all other common draining, sewage pipes, junctions, etc. admeasuring 125 Sq. Yds. (equivalent to 104.5 Sq. Mtrs.) which is butted and bounded as follows: On The North By: Plot No. 124; On The South By: Plot No. 122; On The East By: Service Lane; On The West By: Road 30ft, wide; (Property)

Date: 24.02.2023 Place: New Delh

Natansh Kr. Pal - Authorized Officer Deutsche Bank A.G.





NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Sd/-



जबिक, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अधोहस्ताक्षरी ड्यूश बैंक एजी, भारत ("बैंक") इसका पंजीकृत कार्यालय भू और 14वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18—20, केजी मार्ग, नई दिल्ली—110 001 में है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पिठत, उक्त अधिनियम, धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 23.11.2022 को एक मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ता मैसर्स जगदंबा आयरन स्टोर ("उधारकर्ता"), श्री बासुदेव सिंह, और श्री राजेश कमार सिंह ("सह–उधारकर्ता) को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि रु. 2.30.66.548.14 (रुपए दो करोड़ तीस लाख छियासठ हजार पांच सौ अड़तालीस और चौदह पैसा मात्र) और उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दरों पर आगे का ब्याज, भुगतान और / या प्राप्ति की तिथि से उसके बाद दैनिक आधार पर अर्जित किया गया आकस्मिक व्यय. लागत. शुल्क आदि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भूगतान करने के लिए कहा था। यहां ऊपर वर्णित ऋणी 13(2) में उल्लिखित राशि को पूरी तरह से चूकाने में विफल रहा है, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित ऋणी / सह–उधारकर्ता को और सामान्य तौर पर आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित,उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 फरवरी 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक 🖊 रचनात्मक कब्जा

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर बैंक को रु. 2,30,66,548.14 (रुपए दो करोड़ तीस लाख छियासठ हजार पांच सौ अड़तालीस और चौदह पैसा मात्र) और उस पर ब्याज का भृगतान करना होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

सभी स्व-निहित आवासीय संपत्ति:- पूरी दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल छत / छज्जा के अधिकार के साथ पार्किंग उद्देश्य के लिए स्टिल्ट में आधे हिस्से के साथ, भूमि के फ्री–होल्ड आवासीय प्लॉट पर निर्मित भवन सं. 123 का हिस्सा / अंग , ब्लॉक नंबर 123, ब्लॉक नंबर बी -1 (संपत्ति संख्या बी-1 / 123 के रूप में भी जाना जाता है), पश्चिमपुरी आवासीय योजना के लेआउट प्लान में, पश्चिम विहार, नई दिल्ली -110063 के रूप में जानी जाने वाली कॉलोनी के साथ अविभाजित अनुपात के साथ उसके नीचे की भूमि का आधा हिस्सा और अन्य सभी सामान्य जल निकासी, सीवेज पाइप, जंक्शन, आदि, जिसकी माप 125 वर्ग गज (104.5 वर्ग मीटर के बराबर), जो निम्न प्रकार से बटा और घिरा हुआ है: उत्तर की ओर: प्लॉट संख्या 124; दक्षिण में द्वारा: प्लॉट नंबर 122; पूर्व की ओर: सर्विस लेन; पश्चिम में : सड़क 30 फीट चौड़ा; (संपत्ति)।

दिनांक: 24.02. 2022 स्थान : नई दिल्ली

नतांश कु. पाल अधिकृत अधिकारी, ड्यूश बैंक ए.जी.

POST-OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF GOOD VALUE IRRIGATION LIMITED

Registered Office: 3rd Floor, Industrial Assurance Building, Churchgate, Mumbai-400020 Tei, No. +91- 022-22820563; E-mail: goodvaluetrigationitd@gmail.com; Website: www.gvil.co.in

IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL Anandrao Bhargay ("Acquirer") in connection with the Open Offer made by the Acquirer to acquire 46,28,390 Equity Shares having a Face Value of Rs. 10,00/- each ("Equity Shares") of the Target Company at Rs. 0,10/- (Rupee Ten Paisa Only) per Equity Share, representing 26,00% of the Equity Share Capital of the Target Company ("Offer"), in compliance with Regulation 18 (12) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequen

Now	emider 25, 2023, in Financial Express (English)), Mumbai Lakshadeep (Marathi) and Jansatta (Hindi).
1.	Name of the Target Company	Good Value Irrigation Limited
2.	Name of the Acquirer:	Rahul Anandrao Bhargav
3.	Name of the Manager to the Offer:	Kunvarji Finstock Private Limited
3. 4.	Name of the Registrar to the Offer	Purva Sharegistry (India) Private Limited
5.	Offer details	Saurit of Statement of the
	a.) Date of opening of the Offer	Wednesday (25/01/2023)
	b.) Date of closing of the Offer	Wednesday (06/02/2023)
6.	Date of completion of payment of	Wednesday (22/02/2023)

amendments thereof. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned Open Offer was made on

4.	Name of the Registrar to the Offer	Purva Sharegistry (India) Private Lis	mited				
5.	Offer details						
	a.) Date of opening of the Offer	Wednesday (25/01/2023)					
	b.) Date of closing of the Offer	Wednesday (08/02/2023)					
6.	Date of completion of payment of consideration and communication of Rejection/Acceptance	Wednesday (22/02/2023)					
Deta	dis of the Acquisition						
Sr.	Particulars	Proposed in the Letter of Offer	Actuals				
1.	Offer Price (in Rs.)	Rs. 0.10/- (Rupees Ten Paisa Only)	Rs. 0.10/- (Rupees Ten Paisa Only				

Sr.	Particulars	Proposed in the	Letter of Offer	Actuals			
1.	Offer Price (in Rs.)	Rs. 0.10/- (Rupes	is Ten Paisa Only)	Rs. 0.10/- (Rupees Ten Paisa Onli			
2.	The aggregate number of Shares tendered	46,28,390 Ed	uity Shares	1,300 Equity Shares			
3.	The aggregate number of Shares accepted	46,28,390 Ed	uity Shares	1,300 Equ	ity Shares		
4.	Size of the offer (the number of Equity Shares multiplied by the Offer Price per Equity Share)	Rs. 4,62,839/- Lakhs Skty Two Hundred and Th	Thousand Eight	Rs. 130/- (Ruper and Thir			
5.	Shareholding of the Acquirer before Public Announcement						
	Number	.0					
	% of Equity Share Capital	0.00	2%	0.0	0%		
6.	Shares agreed to be acquired by way of a Share Purchase Agreement (SPA)						
	Number	97,14	300	97,14,300			
	+ % of Equity Share Capital	54.57%		54.57%			
7.	Shares acquired by way of Open Offer						
0.00	Number	46,28	390	1,300			
	% of Equity Share Capital	26.00%		0.01	%		
8.	Shares acquired after Detailed Public Statement ('DPS')		NICA .	9,7100			
	Number	S N	i(Nil			
	★ % of Equity Share Capital	N	il	Nii			
	Price of the Shares Acquired	Not App	ilicable	Not Applicable			
9.	Detail	Pre C	Offer	Post Offer			
	×.	No. of Shares	% of Equity Share Capital	No, of Shares	% of Equity Share Capital		
a)	Pre & Post offer Shareholding of the Acquirer	0	0	97,15,600	54.58		
b)	Post-offer shares held by existing Promoter /Promoter group	97,14,300	54,57	0	0		
10.	Detail	Pre C	Offer	Post	Offer		
2352	750500 F	No. of Shares	% of Equity Share Capital	No. of Shares	% of Equity Share Capital		
	Pre & Post offer Shareholding of the Public	80.87.200	45.43	80,85,900	45.42		

under SEBI (SAST) Regulations, 2011. Accopy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI and BSE Limited. Capitalized terms used in this advertisement, but not defined herein, shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dispatched on January 18, 2023 & January 20, 2023.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

KUNVARJI Driven By Knowledge

KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S. G. Highway Road, Mouje Makarba, Ahmedabad, Guiarat - 380051

SEBI Reg. No.: MB/INM000012564 Email Id : niraj thakkar@kunvarji.com; Website: www.kurwarii.com

Contact Person: Mr. Niraj Thakkar/ Mr. Ronak Dhruve rel. No. : 079-66669000

For and on behalf of the Acquire

Date: 24.02.2023

Rahul Anandrao Bhargay

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ् पंजीकत कार्यालय : शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. 501. सेल्कन औरम. जसोला डिस्टिक्ट सेंटर. नई दिल्ली. दक्षिण दिल्ली. दिल्ली-110025 एवं शाखा कार्यालय : शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. 567-569. चौधरी मार्केट. निकट यनियन बैंव ऑफ इंडिया, सरधना, मेरठ

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखे]

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु खुली नीलामी बिक्री सूचना। एतद्वारा सामान्य रूप से जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को सूचित किया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने रचनात्मक कब्जा कर लिया है ा. श्री राजीव कुमार (कर्जदार/बंधककर्ता) पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम लवार, लवार खास ग्रामीण, मेरठ, उ.प्र.-250222; 2. श्री सतीश चंद सिन्हा (गारंटर/बंधककर्ता) पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश निवासीः - ग्राम लवार, लवार खास ग्रामीण, मेरठ, उ.प्र.-250222; और 3. श्री संजीव कुमार (जमानती/बंधककर्ता) पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम लवार. लवार खास ग्रामीण, मेरठ, उ.प.-250222 से शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के 17.02.2020 तक बकाया रु. 5.15.456.68/- (रुपये पांच लाख पन्द्रह हजार चार सौ छप्पन एवं अड़सठ पैसे मात्र) तथा ब्याज एवं उसके पश्चात प्रभार की वसूली हेतु बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर 14.03.2023 को की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 21,42,000/- (रुपये इक्कीस लाख बयालीस हजार मात्र) तथा जमा धरोहर राशि संविदा राशि का 10% अर्थात रु. 2,14,200/- (रुपये दो लाख चौदह हजार ेदो सौ मात्र) होगी, बाद वाली राशि बैंक के पास 14.03.2023 को 5 बजे अप. तक जमा करनी होगी जिसके विवरण निम्नलिखित हैं

के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	ंजमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.)
1. श्री राजीव कुमार (कर्जदार/बंधककर्ता) पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम लवार, लवार खास ग्रामीण, मेरठ, उ.प्र250222; 2. श्री सतीश चंद सिन्हा (गारंटर/बंधककर्ता) पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश निवासी: - ग्राम लवार, लवार खास ग्रामीण, मेरठ, उ.प्र250222; 3. श्री संजीव कुमार (जमानती/बंधककर्ता) पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम लवार, लवार खास ग्रामीण, मेरठ, उ.प्र250222 (ऋण खाता सं. 103141000157)	17-02-2020 रु. 5,15,456.68/- (रुपये पांच लाख पन्द्रह हजार चार सौ छप्पन एवं अड़सठ पैसे मात्र)	अचल संपत्तियों का समस्त भाग जिनका पता है - आवासीय सम्पत्ति माप क्षेत्रफल 430 वर्ग मीटर, खसरा नं. 1616, 1618, खाता सं. 49, ग्राम लवदा जनाली (सीमाओं में यूएजेडए), परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, उ.प्र.	21,42,000/- (रुपये इक्कीस लाख बयालीस	आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात रु. 2,14,200/- (रुपये दो लाख चौदह हजार दो सौ मात्र)

नीलामी की तिथि तथा संविदा खलने की तिथि : 14 मार्च, 2023 को 1100 बजे से 1500 बजे

प्रस्ताव ∕ ज.ध.रा. जमा करने की अन्तिम तिथि : 13 मार्च, 2023 को 5.00 बजे अपराह्न तक

के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया शिवालिक स्माल https://shivalikbank.com/auctlon of bank properties.php में प्रावधानित लिंक देखें

बिक्री के महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्ते :

(1) सम्पत्ति/दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के साथ उपर्युक्त तिथि एवं समय पर किया जा सकता है। (2) विक्रय के सभी सामान्य नियम एवं शर्तों सहित संविदा दस्तावेज/प्रपत्र ऊपर उल्लिखित बैंक के शाखा कार्यालय से कार्यालयी अवधि के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधिकृत

प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छक संविदाकारों को अपनी महरबन्द संविदाएँ निर्धारित संविदा प्रारूप में बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजनी हैं। (3) विक्रय के सभी सामान्य नियम एवं शर्तों सहित संविदा दस्तावेज/प्रपत्र ऊपर उल्लिखित बैंक के शाखा कार्यालय से कार्यालयी अवधि के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधिकत

प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक संविदाकारों को अपनी मृहरबन्द संविदाएँ निर्धारित संविदा प्रारूप में बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजनी हैं। (4) संविदा मुहरबन्द लिफाफे में जिस पर नीलामी सम्पत्ति हेतु संविदा उल्लिखित करते हुए तथा इसके साथ ''शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' के पक्ष में आहरित लखनऊ मे देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ज.ध.रा. (जो संविदा राशि का 10% होगा) बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर 14 मार्च, 2023 को 5.00 बजे अप. तक जमा करनी है। जो संविदार

होगा। संविदाकार द्वारा एक बार संविदा जमा करने के उपरान्त इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। (5) मुहरबन्द संविदाएँ 14 मार्च, 2023 को 14.00 बजे–15.00 बजे तक बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर उस समय उपस्थित संविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी और इसके पश्चात पात्र संविदाकारों को अधिकृत प्राधिकारी के विशेषाधिकार पर प्रस्ताव मुल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक संविदा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।

भरी नहीं गयी हैं अथवा अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होती हैं उन्हें अवैध संविदा माना जायेगा और तदनुसार उसे निरस्त कर दिया जायेगा। प्रदत्त ज.ध.रा. पर कोई ब्याज देय नहीं

(6) जमा किया जाने वाला संविदा मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगा तथा संविदाकार रु. 50,000/- के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ा सकेंगे। सम्पत्ति अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मुल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी।

(7) सफल संविदाकारों को विक्रय मुल्य का 25% (ज.ध.रा. शामिल) तुरन्त या अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस तक शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में आहरित, नोएडा में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा और सफल संविदाकार द्वारा विक्रय मृल्य की शेष राशि कम्पनी द्वारा विक्रय सुनिश्चित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छक संविदाकारों द्वारा प्रदत्त ज.ध.रा. तथा विक्रय मुल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल संविदाकार विक्रय की शर्तों का अनुपालन करने में असफल होता है या कोई चुक करता है तो ज.ध.रा. अथवा 25% की जमा, जैसा मामला हो, कम्पनी द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(8) बैंक प्रस्तावित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्रचलित कानून से किसी अनुमित/अनापित प्रमाणपत्र प्रापण करने अथवा बकाया पानी/बिजली की देयताओं सम्पत्ति कर अथवा अन्य प्रभारों, यदि कोई हो, जैसे अन्य बकायों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है।

(9) सफल संविदाकार किसी विकास प्राधिकरण के लिम्बत बकायों, यदि कोई हो/नगर निगम अथवा किसी अन्य प्राधिकरण/एजेन्सी के करों/यूटिलिटी बिलों तथा 'विक्रय प्रमाणपत्र' पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित समस्त व्ययों का वहन करेगा।

(10) अधिकृत प्राधिकारी को कोई या सभी प्रस्ताव/संविदाएँ स्वीकार करने या निरस्त करने अथवा बिना कोई कारण बताए विक्रय को आस्थगित करने/निरस्त करने या बिना किसी पुर्व सूचना के विक्रय की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार एवं विशेषाधिकार है।

(11) एक बार लगाई गयी बोली को निरस्त या वापस नहीं किया जा सकता है। (12) अपने पूर्ण ज्ञान एवं सूचना के आधार पर बैंक को छोड़कर विक्रय की जा रही सम्पत्ति पर किसी प्रकार के ऋणभार की बैंक को जानकारी नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी स्वयं की सन्तुष्टि के लिए सम्पत्ति का अपना निजी आकलन कर लेना चाहिए। बैंक उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्तता/स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से कोई गारंटी नहीं लेता है या कोई प्रतिनिधान नहीं करता है। किसी अन्य सूचना के लिए अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, सम्पत्ति कर या सरकारी अथवा किसी अन्य निकाय के किसी अन्य बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। एतद्वारा कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) को विक्रय के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की

(13) अचल सम्पत्ति का विक्रय उच्चतम बोलीदाता को किया जायेगा। किन्तु यदि अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक प्रतीत हो तो उन्हें पारस्परिक बोली की अनुमति देने का निरपेक्ष विशेषाधिकार है। (14) बैंक सम्पत्ति के किसी ऐसे दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं है जो कर्जदाता कम्पनी के संज्ञान में नहीं है।

सूचना दी जाती है और वे विक्रय के नियम एवं शर्तों के विवरण के अनुसार ऊपर वर्णित अचल सम्पत्ति की खरीद हेतु इच्छुक क्रेता/खरीददार ला सकते हैं।

(15) कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) को एतद्वारा पूर्ण रूप से बकाया अदा करने के लिए तथा इस सूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज एवं व्ययों सिहत बकाये का भुगतान करने के लिए सरफैसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) तथा 9(1) के तहत 30 दिवसीय वैधानिक सूचना दी जाती है जिसमें असफल होने पर प्रतिभूत आस्ति का विक्रय उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा। यदि विक्रय सूचना के अंग्रेजी तथा मातृभाषा के समाचार-पत्रों में प्रकाशन के बीच कोई असंगति पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार पत्र को मातृभाषा के समाचार पत्र की तुलना में वरीयता दी जायेगी और इसे अन्तिम प्रति माना जायेगा इस प्रकार कोई अस्पष्टता दूर हो जायेगी। यदि कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता विक्रय की तिथि से पूर्व कम्पनी के सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी रोक दी जायेगी। किन्तु ऐसे मामलों में सूचना में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार यथाप्रयोज्य भावी ब्याज वसूल किया जायेगा तथा इस वसूली तक आकस्मिक व्यय, लागतें आदि बकाया तथा देय होंगी।

(16) अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी और प्रश्नचिह्न रहित है। यह माना जायेगा कि संविदा जमा करने वाले सभी संविदाकार ने बिक्री के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उसे बँधा हुआ है।

(17) अधिक विवरण के लिए संभावित संविदाकार श्री जगबीर गिरि- संपर्क नं. 9045002318 से सम्पर्क कर सकते हैं।

1. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभृत लेनदार बैंक सभी कर्जदार/सह–कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के पास डाक द्वारा उनके पतों पर बिक्री सूचना निर्गत करने जा रहा है। यदि उनमें से किसी भी पक्ष को वह प्राप्त नहीं होता है तो इस सूचना को सर्विस के वैकल्पिक माध्यम के रूप में माना जाये

2. कर्जदार/सह–कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा यह भी सृचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपनी घरेलू वस्तुएँ, यदि कोई हो, जो उपर्युक्त परिसर में/बैंक के संरक्षण में है, पूर्व अनुमति लेकर निकाल लें, जिसमें असफल रहने पर इस विषय में बैंक का कोई दायित्व/उत्तरदायित्व नहीं होगा और इसे कर्जदार/सह–कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के जोखिम पर निस्तारित कर दिया जायेगा और बकायों के प्रति बिक्री कार्यवाही में समायोजित कर दिया जायेगा।

3. यदि किसी भी कारण से नीलामी असफल हो जाती है तो कम्पनी सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत मैंडेटेड प्रावधानों के अनुसार निजी सन्धि के माध्यम से उपर्युक्त बंधक सम्पत्ति/यों को बेचने के लिए स्वतन्त्र होगी।

तिथि : 22.02.2023, स्थान : मेरठ

ह./- प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(रुपये लाख में

न्यूटाइम इफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआईएनः L24239HR1984PLC040797

पंजीकृत कार्यालयः लोटस ग्रीन सिटी, सेक्टर 23 व 24, भिवाड़ी अलवर बाईपास, 75 मीटर रोड, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, हरियाणा—123401 दूरभाष : 91-7419885077, ई-मेल : newtimeinfra2010@gmail.com, वेबसाइट : www.newtimeinfra.in

> 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के एकल एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

				एक	ल		v	25				समेकित		
爾.:	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नी माह समाप्त व		समाप्त वर्ष	PARAGROSS	त्तमाप्त तिमाही		समाप्त नी माह		समाप्त वर्ष		
सं	20003341				LOS DEPOSITORS AND PROPERTY.	31.12.2021 (अलेखापरीक्षित)		31.12.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीकित)	31.12.2021 (अलेखापरीक्रित)	31.12.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2021 (अलेखापरीक्षित)	LACTURE CONTRACTOR CONTRACTOR	
1.	परिचालनों से कुल आय	175.00	101.50		289.00	_	_	175.00	101.50		289.00	_		
2.	एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम के लाम/(हानि) के अंश, आपवादिक मदाँ एवं कर पूर्व लाम/(हानि)	28.86	(16.17)	(106.35)	(86.78)	(351.54)	(464.73)	18.45	(26.36)	(115.89)	(117.34)	(379.62)	(502.68	
3.	अवधि हेतु निवल लाम / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	28.86	(16.17)	(106.35)	(86.78)	(351.54)	(464.73)	18.45	(26.36)	(115.89)	(117.34)	(379.62)	(502.68)	
4.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपसंत)	28.86	(16.17)	(110.51)	(64.66)	(355.70)	(2,641.64)	18.45	(26.36)	(120.05)	(95.22)	(383.78)	(2,679.59)	
5.	परिचालनरत् व्यवसाय से कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	28.86	(16.17)	(110.51)	(64.66)	(355.70)	(2,641.64)	18.45	(26.36)	(120.05)	(95.22)	(383.78)	(2,679.59)	
6.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाग / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	28.86	(16.17)	(110.51)	(64.66)	(355.70)	(2,640.38)	13.04	(9.64)	(95.61)	(73.35)	(419.58)	(2,781.17)	
7.	प्रदत्त समता अंश पूंजी (अंकित मूल्य रू. 1/- प्रत्येक का)	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	
8.	आरक्षितियां, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर, पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार				(-		770.51				0.50		6,345.58	
9.	आय प्रति अंश (अंकित मूल्य रु. 1/- प्रत्येक का) (परिचालनस्त् परिचालनों हेतु)-				2100000					SMOOTS SAIN	0 00000000			
	(क) मूलभूत	0.02	(0.01)	(0.06)	(0.04)	(0.21)	(1.55)	0.01	(0.01)	(0.06)	(0.04)	(0.25)	(1.63)	
	(ख) तरलीकृत 175.00	- 220	_	24	-		-	(3258	- 22			34	

उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा एवं संस्तृति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा 22 फरवरी 2023 को की गई थी तथा बाद में कंपनी के निदेषक मण्डल द्वारा 22 फरवरी 2023 को आयोजित अपनी बैठक में परिणामों का अनुमोदन किया गया।

2. सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 की आवश्यकताओं के अनुसार, संवैधानिक लेखापरीक्षक ने 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के कंपनी के एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का एक लेखापरीक्षण निष्पादित किया है।

3. यह विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विरचित प्रासंगिक नियमावली के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारितानुसार भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के अनुसार तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 (संशोधितानुसार) के अनुरूप तैयार किया गया है।

4. अन्य व्यापक आय में परिभाषित लाभगत योजनाओं तथा ऐसे ही अन्य समायोजनों का शुद्ध प्रवाह सम्मिलित हैं।

5. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को विद्यमान अवधि के प्रस्तुतिकरणों के अनुरूप बनाने के लिये जहां-जहां अनिवार्य समझा गया है, वहां-वहां पुनर्समृहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

6. चूंकि कंपनी के पास एक ही परिचालनरत खण्डवार है अतः आईएनडी एएस 108-परिचालनरत खण्डवार के अंतर्गत प्रकटीकरण लागू नहीं है।

7. कंपनी ने 31 दिसंबर 2022 को समाप्त क्रमश: तिमाही और अवधि के लिए रु. 28.86 लाख का एक शुद्ध लाभ अर्जित किया है और रु. 64.66 लाख की एक हानि उठायी है, और 31 दिसंबर 2022 के अनुसार संचित घाटा रु. 5493.35 लाख है। प्रबंधन ने 31 दिसंबर 2022 के अनुसार कंपनी पर कोविड-19 प्रसार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण होने वाले नुकसान और व्यवधान के संभावित प्रभाव पर विचार किया है, जिसमें तरलता का आकलन और चिंता की धारणा और परिसंपत्तियों का वहनगत मूल्य सम्मिलित है। इस तरह की धारणा के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि किसी भी परिसंपत्ति के क्षीण होने की संभावना नहीं है और कंपनी निकट भविष्य के लिए एक चलायमान कंपनी के रूप में कार्य करने में सक्षम होगी। 8. पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान, कंपनी ने 6 सितंबर 2022 को ''क्रॉपबे रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और एस्टाएग्रो रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड'' नामक दो सहायक कंपनियों में अपने निवेश का निस्तारण किया

हैं। तदनुसार उन सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणामों को निस्तारण तिथि तक समेकित किया गया है।

9. दिनांक 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, कंपनी की वेबसाइट https://www.newtimeinfra.in/ और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

न्यूटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

राज सिंह पुनिया

अतिरिक्त निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी डीआईएनः 09615705

कार्यालय बंद करने की सूचना

पॉलिसीबाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड

हम 3 मार्च, 2023 को दुकान नंबर एफ–12, दूसरी मंजिल, सेक्टर–18, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 20301 ('डेमाइज्ड परिसर') में स्थित अपना कार्यालय बंद कर रहे हैं।

युनिट नंबर – 4 और 5, पहली मंजिल, एस्टोरिया बुलेवार्ड मॉल, प्लॉट नंबर –18 बी, ब्लॉक-सी, आरडीसी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201002 में हमारा कार्यालय निकटतम परिचालन कार्यालय है। हालांकि, वेबसाइट, ईमेल पते और टेलीफोन सहित हमारा व्यवसाय परी तरह से चालू है और इस कार्यालय से हमारे ग्राहकों को सेवा देने में कोई बदलाव / देरी नहीं होगी।

पंजीकृत कार्यालय - प्लॉट नंबर 119, सेक्टर - 44, गुइगांव, हरियाणा - 122001 । IRDAI पंजीकरण संख्या 742, 09/06/2024 तक मान्य, लाइसेंस श्रेणी– डायरेक्ट ब्रोकर (लाइफ और जनरल) सीआईएन: U74999HR2014PTC053454

Fullerton India Fullerton India Credit Company Limited कॉफ्रेंस्ट कार्यांक्यः सुप्रीम विजनेस पार्क, 5 और 8 तल, वी विंग, पवई, मुंबई 400076

कब्जा-सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत) चुकि अधीहस्ताक्षरी फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, जिनका मेघ टावर्स, तीसरी मजिल,

पुराना नंबर 307, नद्या नंबर 165, पुनमल्ली हाई रोड मदुरवीयल, चेन्नई, तमिलनाड्-600095 ह पंजीकृत कार्यालय और मंजिल 5 और 6, बी दिंग, सुप्रीय आईटी पार्क, सुप्रीय सिटी, लेक कैस्टल के पीछे, पवर्ड, मुंबई 400076 में कॉपीरेट कार्यालय है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.12.2021 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें ऋण खाता संख्या (ओ) 173001310354854 और 173003910355040 के तहत उधारकर्ता (ओ) t) विनय एंटरप्राइजेज, 2) विनय चौधरी, 3) संगीता को नोटिस में उल्लिखित राशि रु 28.12.524- (छब्बीस लाख बारह हजार पांच सौ चीबीस रुपये मात्र) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणकर्ला (ऋणकर्ताओं) ने एक शक्ति का भगतान करने में विफल रहे हैं. एतदवारा ऋणी(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के निवम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के तहत उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संयत्ति का 21 फरवरी, 2022 को कब्जा ले लिया

विशेष रूप से उधारकर्ता और जाम जनता को एतदवारा साथधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन रुपये 26.12.524/- (छब्बीस लाख बारह हजार पांच सी चौबीस रुपये मात्र) और उस पर ब्याज की राशि के लिए फ्लर्टन इंडिया क्रेंडिट कंपनी लिमिटेंड के शुल्क के अधीन होगा।

प्रतिमृति परिसंपत्तियों को मुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (८) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अथल संपत्ति का विवरण: पलैट घारक नंबर-यूजीएफ-2 (क्षेत्र 115 वर्ग गज) और यूजीएफ-3

(क्षेत्र 72 वर्ग गज),बिना छत अधिकार - के, फ्लैट धारक नंबर जी-228, खसरा नं. 1021 के बाहर महेंद्र एन्वलंब, ग्राम राजपुर के क्षेत्र में, परगना—ढासना, तहसील और जिला, गाजियाबाद, यू.पी स्थित संपत्ति का वह सभी हिस्सा और अंश।

स्थानः गाजियाबाद यू.पी. दिनांक: 24.02.2023

हेत् नीलामी सह बिक्री की

सार्वजनिक सुचना

हस्ता /- अधिकृत अधिकारी फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) दोहराना एआरसी कॉर्पोरेट कार्यालय का पता 5वीं मंजिल, प्लॉट न.137,

सेक्टर 44, गुरुग्राम-122002, हरियाणा ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणियों एवं गारंटरों को नोटिस दिया जाता है वि

ऋण खाते में बकाया देय राशि को सुरक्षित रखने के लिए नीचे वर्णित अचल संपत्ति को एनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवीध्चार्ज किया गया है, एईआरसी -एफपीआई—001—न्यास ("सिक्योर्ड क्रेडिटर") के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में काम कर रही है, जिसका कब्जा सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है,जिसको मैसर एनिवॉक्स सर्विसेज, श्री गौतम मंडल , श्रीमती रिंकू मंडल के माध्यम से सुरक्षित लेनदार वे बकायों,दिनांक 14.02.2023 के अनुसार रु. 98,67,820 / — (रुपये अट्ठानबे लाख सरसठ) हजार आठ सौ बीस मात्र) एवं 15.02.2023 से वसूली तक के भविष्यगत ब्याज, शुल्क और लागत की वसूली के लिए 14.03.2023 को ''जैसा है जहां है'', ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' वे

Older Midrigly (1917) 47 1445-1	Ollerate Lear	14111 (1141 9111 (8519)
आवासीय कॉलोनी "केन्द्रीय विहार" के रूप में जाना जाता है	ড.	₹.
में, प्लॉट नंबर जीएच—49, सेक्टर 56, गुड़गांव,	76,00,000 / -	7,60,000 / -
हरियाणा—122011 में स्थित ब्लॉक नं. 11, फेज II में 1181.56	(रुपये छिहत्तर	(सात लाख साठ
वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र वाली टाइप एम आवास , यूनिट नंबर 606,	लाख मात्र)	हंजार रुपए मात्र
छठी मंजिल के सभी हिस्से और अंश , स्टिल्ट कार पार्किंग		
स्पेस नंबर सीएस–29, फेज– II के साथ सम्पत्ति।		

यदि ईएमडी जमा करने की तिथि और ई–नीलामी की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया

जाता है तो तिथि स्वतः ही अगले कार्य दिवस तक बढा दी जायेगी।

उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता, जमानतदार और बंधक इस नोटिस को 15 दिनों की बिक्री सूचना के रूप में मान सकते हैं और एतदद्वारा इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऊपर बताए गर दायित्व को पूरा करने का अंतिम और अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति इस बिक्री को सूचना में प्रकाशित नियमों और शर्तों के साथ—साथ यहां दिए गए लिंक के अनुसार विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यार्न

http://www.encorearc.com/ में दिए गए लिंक को देखें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए इच्छुक पक्ष सुरक्षित लेनदार के मोबाइल नंबर 9873181249 प

संपर्क कर सकते हैं या sachin.kumar@encorearc.com पर ई-मेल करें।

दिनांकः 23.02.2023 स्थान : गुड़गांव

अधिकृत अधिकारी

एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

प्रपन्न सं.3 [विनियमन-15(1)(ए)]/16(3) देखें ऋण वसुली अधिकरण चण्डीगढ़ (डीआरटी-2) पहला तस एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17ए, वण्डीगढ (तीसरी और बीबी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आर्यटित)

ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम 2(ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन Exh. No.12011 फेडरल बैंक

सोनू एवं अन्य

केस नं.: ओए/316/2022

(1) सोनू एवं अन्य पुत्र श्री लखमी चन्द श्री सोनू पुत्र श्री लखमी चन्द निवासी मकान नं. 76, संजय कॉलोनी, गली नं. 3,

पानीपत जिला पानीपत, हरियाणा-132103, पानीपत हरियाणा. (2) श्रीमती बालादेवी पत्नी श्री लखमी चन्द मकान नं. 76 संजय कॉलोनी, गली नं. 3, पानीपत, हरियाणा.

(3) श्री विक्रम पुत्र श्लाखी चंद

मकान नं. 76 संजय कॉलोनी, गली नं. 3, पानीपत, हरियाणा. (4) सुश्री अंजलि पुत्री श्री लखमी चन्द,

मकान नं. 326-163 संजय कॉलोनी पार्ट II, पानीपत, हरियाणा. (5) सुश्री भगती देवी पत्नी श्री लखमी चन्द

निवासी मकान नं. 76 संजय कॉलोनी, गली नं.3, पानीपत, हरियाणा.

(6) श्री अमन रॉर पुत्र लखमी चन्द मकान न. 76 सजय कालाना, गला न.3, पानापत, हारयाणा.

इस पर भी: गाँव कैमला तहसील घराँदा, करनाल, हरियाणा. समज्स

जैसा कि, ओए/316/2022 दिनांक 23/08/2022 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सुचीबद्ध किया गया था। जैसा कि माननीय अधिकरण स.26,46,520.50 के ऋणों की वसुली के लिए दाखिल

(ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर संमन्स/सूचना सहर्ष जारी किया है। (दस्ताबेजों आदि की प्रतियों के साथ आबेदन संलग्न)। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार प्रतिबादियों को निम्न निर्देश

(i) संमन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण दर्शाएं की माँगी गई राहतों को क्यूं न स्वीकार की जाए।


(ii) मूल आवेदन के कमांक 3ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों के विवरणों को उद्घाटित

(iii) सम्पत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा निपटारे के लम्बित होने की स्थिति में मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उदघाटित किसी अन्य सम्पत्तियाँ एवं सम्पत्तियों अथवा प्रतिभत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय या निपटारा करने से आपको बंचित किया जाता है।

(iv) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के विना व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी भी परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभूत हित निर्मित है एवं/ अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत निर्दिष्ट या उद्घाटित किसी अन्य परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों का विक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं करेंगे। (v) आप प्रतिभृत परिसम्पत्तियों या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिसम्पत्तियाँ तथा सम्पत्तियाँ अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियाँ की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिकी राशि का ब्यौरा देने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रतिभृति हित धारित करने वाले बैंक या वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खाता में उक्त बिक्री राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित स्पष्टीकरण दें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पास प्रस्तृत करें तथा 02/03/2023 को 10:30 बजे पूर्वा. में रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी

अनुपस्थिति में की जाएगी। आज 30/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।



टिप्पणीः जो भी लागू ना हो छोड़ दें।

स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

दिनांक : 22-02-2023